

बघेल (किराड़े) , श्रीमती रंजना

भारतीय जनता पार्टी

निर्वाचन क्षेत्र- मनावर (199)



पिता का नाम-	श्री रामसिंह बघेल
जन्म तिथि-	03 दिसम्बर, 1965
जन्म स्थान-	ढोल्या (कुक्षी), जिला-धार
वैवाहिक स्थिति-	विवाहित
पति-	श्री मुकाम सिंह किराड़े
संतान-	2 पुत्र
शैक्षणिक योग्यता-	एम.ए. (राजनीति शास्त्र एवं समाज शास्त्र)
व्यवसाय-	कृषि एवं गैस एजेन्सी
अभिरुचि-	लोक नृत्य, लोकगीत, कविता लेखन
स्थायी पता-	एफ-1, जोबट कालोनी, कुक्षी, जिला-धार (म.प्र.) दूरभाष- (07297) 234533 मोबाइल-9827811018, 9425045988 ई-मेल- ranjana.kirade@mpvidhansabha.nic.in
स्थानीय पता-	विधायक विश्राम गृह, नया पारिवारिक खण्ड-2, कमरा नं.07, भोपाल.

सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन का संक्षिप्त विकास क्रम-

छात्र जीवन में छात्राओं की समस्याओं को लेकर संघर्ष तथा आंदोलन. आदिवासी विकास परिषद की प्रांतीय अध्यक्ष. संयुक्त सचिव तथा मध्यप्रदेश विकास परिषद तहसील कुक्षी की अध्यक्ष. 1990 में नौवीं विधान सभा की सदस्य निर्वाचित एवं संसदीय सचिव. 1992-94 में भा.ज.पा. महिला मोर्चा की कार्यकारिणी की सदस्य एवं प्रदेश मंत्री. 2001-2003 में जिला पंचायत धार की सदस्य. 1998-2000 में भा.ज.पा. की प्रदेश मंत्री. 2002-2003 में राष्ट्रीय महिला मोर्चा की कार्यकारिणी की सदस्य. 2002-2004 में एकीकृत आदिवासी परियोजना कुक्षी जिला धार की अध्यक्ष. 2008-2013 तक परियोजना अध्यक्ष धार. 2003 में बारहवीं विधान सभा की सदस्य निर्वाचित एवं राज्यमंत्री आदिम जाति कल्याण, सामान्य प्रशासन, विमानन रहीं. विधान सभा की महिला एवं बाल कल्याण, अ.ज., अ.ज.जा. तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति की सदस्य एवं पुस्तकालय समिति की सभापति. नवंबर, 2006 से मध्यप्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद की विशेष आमंत्रित सदस्य. 2005-06 में भा.ज.पा. मध्यप्रदेश की प्रदेश मंत्री. 2012 में भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य मनोनीत की गईं. सन् 2008 में तेरहवीं विधान सभा की सदस्य निर्वाचित एवं राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय तदनंतर मंत्री, महिला एवं बाल विकास रहीं.

सन् 2013 में चौथी बार विधान सभा सदस्य निर्वाचित.